

#### MINDA CORPORATION LIMITED

(Group Corporate Office)

November 07, 2025

The Officer-In-Charge (Listing)
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),

Mumbai - 400 051

Scrip Code: MINDACORP

Head - Listing Operations, BSE Limited, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 538962

<u>Sub:</u> <u>Filing of clipping of the Un- Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended on September 30, 2025 published in the newspapers under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015</u>

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015 the Company has published Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended on September 30, 2025 in the newspapers and clippings of the same are being submitted for your reference and records.

You are requested to kindly take the same on record for further needful.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Minda Corporation Limited

Pardeep Mann Company Secretary Membership No. A13371

Minda Corporation Limited (Group Corporate Office)

CIN: L74899DL1985PLC020401

D-6-11, Sector 59, Noida — 201301, U.P., India Tel: +91-120-4787100; Fax: +91-120-4787201

Registered Office: A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052

Website: www.sparkminda.com; Email: investor@mindacorporation.com

THE ECONOMIC TIMES | NEW DELHI / GURGAON | FRIDAY | 7 NOVEMBER 2025 | WWW.ECONOMICTIMES.COM

ET's roundup of the wackiest whispers in corporate corridors

#### Catch'em Fresh



The Indian womens criciae team trait just lifed the WorldCup. While the top stars are already taken, it's the emerging players who are the new battle ground. Agencies are out-doing themsolves to sign the freshtatent, given the promise they have shown in long and promise they have shown in long and promising careers.

#### **New Headache**



74

New Headacine
The record (Sir reig has lifted usales but usales) in usales but usales but usales but usales but usales but usales now dismars; input costshave gone up post thetax cut, but manufactures fear revising prices and inviting che seed principle from the beat thinals to a sharp hile in memory chip prices. Companies affected are in a houcile and nou plant loap proach the government seeking clerity—and the

#### **HC Questions** Patanjali over **Ad Terming** Chyawanprash **Brands** as Fraud

Our Bureau

New Delhi: The Delhi High Coburt on Thursdey questioned Papany of Patenjali Rode, for torming chyavamprash products
mental pany of Patenjali Rode, for torming chyavamprash products
mental pany of Patenjali Rode, for torming chyavamprash products
mental pany of Patenjali Rode,
mental Rode pany of Rode
had allegedly termed all other
had allegedly termed all other
had allegedly termed all other
chavamprash
termed all other
had allegedly termed all other
had allegedly
the the dely
the the work
had the word interior,
what it the problem? This is
not the representation
from the advertisement.

No are saying everyone is
elicitical, and I om genuino.



store the proposed of the separation of the proposed of the separation of the separa

\_\_uwith concesses of ruth-fulness."

Dabur alleged the commercial deliberately maligns its flagship Dabur Chyawanpash which has Johnhard the narket shiber of the properties o

## Chips are Down for Handset Cos Amid AI Boom

**Pressure Points** 

hike smartphone prices on rising component costs and supply woes

SubmrightMailick

New Dehhi: Smarriphone makers
areflacing a shortage of critical conpromots such as monozer chips and
storagedustic suppliorsediwrish and
storagedustic suppliorsediwrish and
storagedustic suppliorsediwrish and
storagedustic suppliorsediwrish
to increase prices, particularly of
outry-love handeless.

A weaker rupe's saisondiffigitothe
Cauching issues for transis, industry
executives and they are seed on
handlest curses said they are so
handless despite "so time of their
models.

Namufactures said they are
handless despite "so time of their
models.

Namufactures said they are
handless despite "so time of their
models.

Namufactures said they are
handless despite "so time of their
models.

Since is holding on to its price
tags this mond degite "so indistry-live laure in memory osots" trismuch until a sharp price increase
gered by the Al demand, a company

15 12 14 12 16 14 18 19 50 51 55 54 52 56 54 58 59 30 31 35

and supply shortage as supplies di-vert capacities to cater to demand from Al datacontree.

Some brands have starved hising handset prices, while others are hol-ding back for more even are real-ing back for more even are real-ding back for more even are real-ted and the supplies and higher prices may hart sales that have started trending down wards after affestive-season syart.

The view of ongoing global supply chips and memory components have been searthly increasing since Au-gust 2025. Chinese smarthlyone brand Oppo wrote to retellers in an official memorandum communica-ting procedules.

official menorandum communica-tingprice highes prices by as much as £4,000 cross most of its high-end and nid range models. Rivals Vivoani Samising also have also instell prices of some of their Xicomi is holding on to its prices tags this month despite 'an indus-revaide sumerin memory costs' tries-

Reta lers say...

hith is closely transfer and the superied to relent to pricing pressure next year with its new model. "As input out pressures continue, the inclusive may witness broader pricrevisions in 2026," the spokesperson told ET.

Higher orices may but also raised prices of some models by **<500-1,500** sales that have started trending down after a festive-season spurit its price tags this month.

An executive from a top smartphone essembler in India who did not wish to be remed said its customers are finding it difficult to scurre memory chips, especially for entry-level smartphones, which rely on of the generation chips.

We just out the difficult in the control of the second with a control of the second with some left-over inventors.

nory of components, which we are using to keep prices stable in the short-run," the executive said. "However, the nexthatch will be sourced at a higher price, which may be passed on to thecustomers."

A weaker rupee has also made in-

sed on to the customers."

A weaker rupee has also made importing components more expensive the executive said.

Desides chips, other critical components such as the processor arealso expected to late inflationary procomponents such as the processor arealso expected to late inflationary procomponents are a component of the components and strong demand from sections like Al and highperformance computing.

This would impact chip production costs for the likes of Apple MediaThis would impact chip production costs for the likes of Apple Mediafree, Qualcomm and Nvides indussry research firm Treadforce. "The 
civing forces behind this pricing 
shift are TSMC's escalating manufacturing expenses, particularly lis-

well as unrivalled dominance in the globalfoundry market, "itsaid. But price hilks may his marriphone stakes." We are already seeing sales dropping dramatically," said Kallash. "We are already seeing sales dropping dramatically," said Kallash kirolik Bertillers Association (AlM-RA) which represents over 100,000 mobile Bertillers Association (AlM-RA) which represents over 100,000 mobile Bertillers Association (AlM-RA) which represents over 100,000 mobile Bertillers and india. "See "Paracise Wong, head of product marketing at Pealine said, "Memory and storage costs are not moring in the same cycles we know theore The AI revolution has rewritten the rules, creating massive demand for high end momery that float or entries and machine learning systems. The same chips core used in smartphones are now heavily pulled toward poowing generative AI models, teaving the multistry to rethink low webball!, price, and mnovated vices."

## Spain's Antolin to **Put India Biz on** Block for €150m

Now Delhi: Spanish auto components maker Grupo Antolin is locking to sellitis India business for (150 million and has engaged advisers for the sale, as per periper for the sale as a sale a

## Sundaram-Clayton Limited

(Formerly known as Sundaram-Clayton DCD Limited)
Regd office: "Chailarrya", No.12, Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam, Chennai 600 006. Website: www.sundaram-clayton.com Tel: 044-2833 2115 Email: corpsec@sundaramclayton.com CIN: L51100TN2017PLC118316

#### STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30<sup>™</sup> SEPTEMBER 2025

9

39

38

37

36

35 8 33

33

3

8

58

28 52

26 52

> 24 23

-81

2

20

.00

17

9 15 -4 6 N

			Standalone		Consolidated				
SI.	Seed to Lond	Quarte	r ended	Year ended	Quarte	Year ended			
No.	Particulars	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025		
		(Unau	dited)	(Audited)	(Unau	(Audited)			
1	Revenue from operations	458.57	539.13	2,109.14	494.75	562.60	2,259.30		
2	Net Profit / (Loss) before tax (before Exceptional Items)	25.91	27.25	109.39	(58.45)	(47.88)	(157.82)		
3	Net Profit / (Loss) before tax (after Exceptional Items)	25.91	23.92	306.08	(58.45)	(51.21)	38.67		
4	Net Profit / (Loss) after tax (after Exceptional Items)	20.19	20,96	257.92	(64.35)	(54.20)	(10.65)		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	19.72	18.66	253.94	(38.35)	(53.88)	(1.63)		
6	Equity share Capital (Face value of Rs. 5/- each)	11.02	10.12	11.02	11.02	10.12	11.02		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			1,413.06	160	•	960.03		
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 57- each) (not annualised) (In Rs.) (i) Basic (ii) Diluted	9.16 9.16	19.36 10.36	122.23 122.23	(29.19) (29.19)	(26.79)	(5.05) (5.05)		

Date: 6th November, 2025

- The above financial results were reviewed and recommended by the Audii Committee and approved by the Board of Directors at their meeting hold on 6th November 2025. The statutory auditors of the Company have appressed an unmodified epinion on these financial results.

  2 The above is an extract of the detailed format of financial results filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the Stock exchange websites (www.bseindia.com and www.neanda.com) and on Company's website (www.sundaram-clayton.com).
  - led Financial Results of the Company for the quarter ended 30th September 2025 can be accessed through the below QR Code:



For Sundaram-Clayton Limited Sd/-

R Gopalan

## MINDA CORPORATION LIMITED

Registered Office: A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052 CIN: L74899DL1985PLC020401, Telephone: +91-0120 - 4442500 Corporate Office: D-6-11, Sector – 59, Noida – 201301, Uttar Pradesh, E-mail: investor@mindacorporation.com, Website: www.sparkminda.com



#### EXTRACTS OF THE STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

Consol			olidated					Standalone				
PARTICULARS	Quarter Ended			Half Yea	r Ended	Year Ended	Quarter Ended			Half Yea	Year Ended	
PARTICOLARS	30-Sep-25	30-June-25	30-Sep-24	30-Sep-25	30-Sep-24	31-Mar-25	30-Sep-25	30-June-25	30-Sep-24	30-Sep-25	30-Sep-24	31-Mar-25
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	1,53,831	1,38,917	1,30,166	2,92,748	2,50,239	5,08,863	1,25,288	1,14,450	1,07,060	2,39,738	2,04,629	4,18,209
Net Profit for the period (before tax)	9,279	7,073	9,593	16,352	18,037	33,566	6,298	5,402	8,329	11,700	15,282	27,738
Net Profit for the period (after tax)	8,454	6,531	7,434	14,995	13,854	25,537	4,699	4,183	6,267	8,882	11,427	20,590
Total comprehensive income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	8,780	6,555	8,200	15,335	14,314	25,425	4,778	4,183	6,303	8,961	11,463	20,592
Equity Share Capital	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782
Other Equity	2,39,181	2,32,512	2,05,446	2,39,181	2,05,446	2,15,436	2,03,629	2.00,993	1,78,350	2,03,629	1,78,350	1,86,291
NetWorth	2,43,963	2,37,294	2,10,228	2,43,963	2,10,228	2,20,218	2,08,411	2,05,775	1,83,132	2,08,411	1,83,132	1,91,073
Earnings Per Share (of ₹2/- each) (not annualised) (a) Basic (in ₹) (b) Diuted (in ₹)	3.60 3.54	2.78 2.73	3.16 3.11	6.37 6.27	5.89 5.79	10.85 10.58	1.97 1.97	1.75 1.75	2.62 2.62	3.72 3.72	4.78 4.78	8.61 8.61
Debt Equity Ratio (in times)	0.53	0.56	0.16	0.53	0.16	0.51	0.64	0.66	0.19	0.64	0.19	0.73
Debt Service Coverage ratio (in times)	0.85	0.82	1.24	1.41	2.22	2.73	0.63	0.65	1.07	1.08	1,88	2.27
Interest Service Coverage ratio (in times)	5.57	4.70	12.33	5.12	12.31	7.84	4.05	3.72	10.51	3.88	10.49	5.54
Capital Redomption Reserve	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920

1. The above financial results were reviewed by the Audit committee on November 6, 2025 and approved by the Board of Directors at their meeting held on the same date.

2. The above results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 and read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

3. The above is an extract of the detailed format of the Firancial Results for the quarter and half year ended on September 30, 2025 filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 33 and 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated results are available on the stock exchanges website(s): www.nseindia.com, www.bseindia.com and on Company's website at www.sparkminda.com.



Ashok Minda Chairman & Group CEO

Minda Corporation is a flagship company of Spark Minda, one of the leading automotive component manufacturer in India with a pan-India presence and significant international footprint.

48

47

95

45

44

43

42

9

39

38

37

36

35

8

26

52

24 23 3

2

20

6

-80

17

91

15

rt

6

N

10

#### THE ECONOMIC TIMES | MUMBAI | FRIDAY | 7 NOVEMBER 2025 | WWW.ECONOMICTIMES.COM

## Grasim Upbeat on Paints Biz as its CEO's Exit Weighs on Stock

#### Nikita Periwal

Minibari Grasim Industries has reiterated that it is on course to become the 
become largest paint maker by matiest 
share and make the basiness profitable 
become largest paint maker by matiest 
share and make the basiness profitable 
largest the state of the suddent resistant 
tion of Rakashi Hargave, the bile for 
sentine of Rakashi Hargave, the chief or 
Shares of Grasim saw thoir sharpont 
largest and the sentine of 
largest the sentine of 
lowest level in more than throomouths, 
distribution of Rakashi Hargave, 
which is the sentine of 
lowest level in more than throomouths, 
spiring its 24% capacity share in the 
description of Rakashi Hargave, 
manufact share and consumer 
manufact share and consumer 
manufact share and 
consumer 
manufact share and 
consumer 
largest 
la

50000000000000000000

#### **DGCA Gathers GPS Spoofing ≅** Incidents Data

Seen Delhi: Avitation requilator DGCA is collecting and specific grotupe about the control of th to deal with them. -PTI

#### STREET FRETS

Shares tumble to lowest level in 3 months as Birla

Opus CEO Rakshit Hargave leaves for Britannia

core by fiscal 2028.

"Despite the extended monsoon, Birla Opus hit is highest ever monthly sole in the month of September and saw an equally strong October month, Indicating increasing brand sallence across markets," Kapania told analysts on a call to discuss quarterly earnings.

He guided that Birla Opus would continue to record double-digit growth on a quarter on quarter basis, and a signi-

He also said that Birle Opas is number two in terms of top of mind recall, as per an independent survey. While the September quarter was one of the slowest for the industry on a sequential basis, with meat companies quential basis, with meat companies. An extended the companies of the companies

#### Bira 91 to Sell 'Asset' to Pay Salaries, Investors Question Plan

New Delhi: Debt ridden craft heer maker 19 Boverages fo-under Ankur Jain Informed employees on Thursday that he has found a buyer for one of the company's assets that wothe company's assets that wo-uld help to inject "Immediate cash" into the company for clearing pending salaries and provident fund dies. "We have sent the proposal to key lenders and shareholders

yesterday...and hopeful of the mely consent, "Jain said in a letter to the employees, a copy of which was seen by ET.

Jain confirmed sending the letter but declined so identify that seen in the beautiful that seen in the second services and the second services are set of the second services."

that asset that is being plan for sale. "The company identified various avenues to


CORRIGENDUM

ENDUM # 2 Dated 04.11.2025

EOI Raé SEUGITC/ITFO/2025/2026/52 DATED: 08.10.202 State Bank of India has issued a corrigendum #2 dated 04.11.2025 to the EOI for procurement of Open Banking Solution(s) along with Development/Implementation/Support/Maintenance for SBI Foreign Deputy General M (IT-FO)

ossets," be told ET. Key share-bolders and lenders of Bira 91 include Japan's Kirin Hollings. Anicut Capital and PeckXVHo wever, two sensor executives at the investing firms questioned the pitopsed asset sale. We don't even know who the buyer is... is there a firm offer or term

of the company's largest investors, asking notto be named. ET tox asking notto be named. ET to the control of the company of the control of t



TENDER NOTICE

E-tenders are invited for the supply of following items. (1) 80913 - Soap Bat (2) 80924 - Electrical Insulating Rubbe Hand Glove for H.V., (3) 80912 - Rear Brake Drum (10,10MTG Hole), (4) 80919 - Supply, Installation and Commissioning of 2.0 Tr, Split Type, 5 Star Rating Inverter Air Conditioner, (5) 80932- Conductor Traffic Earning Receipt Forms.

Re - invited e-tenders

Note: For more details, log on to website https://mahatenders.gov.in

#### MINDA CORPORATION LIMITED

Registered Office: A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052 CIN: L74899DL1985PLC020401, Telephone: +91-0120 - 4442500 Corporate Office: D-6-11, Sector – 59, Nolda – 201301, Uttar Pradesh, E-mail: investor@mindacorporation.com, Website: www.sparkminda.com

## SPRK MINDA

EXTRACTS OF THE STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

		Consolidated							Standalone								
	PARTICULARS	Quarter Ended			Half Yea	Half Year Ended Year En		Ended Quarter Ended			Half Yea	Year Ended					
	TANTICOLARS	30-Sep-25	30-Sep-25	30-Sep-25	30-Sep-25	30-Sep-25	30-June-25	30-Sep-24	30-Sep-25	30-Sep-24	31-Mar-25	30-Sep-25	30-June-25	30-Sep-24	30-Sep-25	30-Sep-24	31-Mar-25
	Ver-	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited				
1.	Total income from operations	1,53,831	1,38,917	1,30,166	2,92,748	2,50,239	5,08,863	1,25,288	1,14,450	1,07,060	2,39,738	2,04,629	4,18,209				
2.	Net Profit for the period (before tax)	9,279	7,073	9,593	16,352	18,037	33,566	6,298	5,402	8,329	11,700	15,282	27,738				
3.	Net Profit for the period (after tax)	8,464	6,531	7,434	14,995	13,854	25,537	4,699	4,183	6,267	8,882	11,427	20,590				
4.	Total comprehensive income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	8,780	6,555	8,200	15,335	14,314	25,425	4,778	4,183	6,303	8,961	11,463	20,593				
5.	Equity Share Capital	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782				
6.	Other Equity	2,39,181	2,32,512	2,05,446	2,39,181	2,05,446	2,15,435	2,03,629	2,00,993	1,78,350	2,03,629	1,78,350	1,86,291				
Z.	NetWorth	2,43,963	2,37,294	2,10,228	2,43,963	2,10,228	2,20,218	2,08,411	2,05,775	1,83,132	2,08,411	1,83,132	1,91,073				
8.	Earnings Per Share (of ₹2/- each) (not annualised) (a) Basic (in ₹) (b) Diuted (in ₹)	3.60 3.54	2.78 2.73	3.16 3.11	6.37 6.27	5.89 5.79	10.85 10.68	1.97 1.97	1.75 1.75	2.52 2.52	3.72 3.72	4,78 4,78	8.61 8.61				
9.	Debt Equity Ratio (in times)	0.53	0.56	0.16	0.53	0.15	0.51	0.64	0.66	0.19	0.64	0.19	0.73				
10.	Debt Service Coverage ratio (in times)	0.85	0.82	1.24	1.41	2.22	2,73	0.63	0.65	1.07	1.08	1.88	2,27				
11.	Interest Service Coverage ratio (in times)	5.57	4.70	12.33	5.12	12.31	7.84	4.05	3.72	10.51	3.88	10.49	6.64				
12.	Capital Redemption Reserve	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920				

Place: Gurugram Date: November 06, 2025

1. The above financial results were reviewed by the Audit committee on November 6, 2025 and approved by the Board of Directors at their meeting held on the same date.

2. The above results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 and read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and half year ended on September 30, 2025 filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 33 and 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated results are available on the stock exchanges website(s): www.nseindia.com, www.bseindia.com and on Company's website at www.sparkminda.com.



Ashok Minda Chairman & Group CEO

Minda Corporation is a flagship company of Spark Minda, one of the leading automotive component manufacturer in India with a pan-India presence and significant international footprint.

## COSMIC CRF

3

36

37

8

39

8

4 42 43

44 45

8

47

48

49 8

5

Place : Kelkata Date : 5th November 2025

#### COSMIC CRF LIMITED

			STAND	ALONE		CONSOLIDATED					
SL.NO	PARTICULARS	Half Year Ended Year Ended				H	Year Ended				
32	PAR IIUULARS	30.09.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	30.09.2025 (Unaudited)	31.63.2025 (Audited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)		
1,	Total Income from Operations	16,377.48	14,315.87	15,864.98	30,180.85	30,716.70	23,257.59	16,939.89	40,197.48		
2.	Net Profit/(Loss) for the Period (Before Tax, Exceptional and/or Extra Ordinary Items)	2,086.56	878.28	1,600.63	2,478.91	3,115.24	1,488.30	1,628.76	3,117.06		
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax. (after Exceptional items and/or Extra Ordinary Items)	2,086.55	878.28	1,600.63	2,478.91	3,115.24	1,488,30	2,220.34	3,768.64		
4,	Net Profit/Loss) for the Period after Tax ( after Exceptional and/or Extra Ordinary items)	1,532.13	624.32	1,208.78	1,833.10	2,450.20	1,145,00	1,757.64	2,902.64		
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Prolift/Loss) for the Period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	Ť			12	9		¥	×		
6.	Paid-up Equity Share Capital	918.76	916.76	819.80	918.76	918.76	918.76	819.80	918.76		
7.	Other Equity	38,144.74	16,498.20	20,114.42	36,612.62	39,977.64	37,972,47	20,114.42	37,972.47		
8.	Earning Per Share										
	Basic	16.69	7.46	14.74	22.20	29.83	13.71	21.44	35.15		
	Dluted	18.69	7.46	14,74	22.20	29.83	13.71	21.44	35.15		

bits on Standalone and Conscillated Financial Results:

These Unacrited Standalone and Conscillated Financial Results of the Company for the half-year ended 30th September, 2013

These Unacrited Standalone and Conscillated Financial Results of the Company for the half-year ended 30th September, 2013

and approved by the Bland of Discords of the Company in their respects to poor neelings held on fish Nevertoke, 2015. The 5 of these would and have been supported an unroutfield candiculation in their report. The results are being published in accordance of Requirements (September 2015). The Unacrided Standalone and Conscillated Financial Feating for the held year ended 30th September 2015 of the Companion Standards (Ruise 2015 and relevant amendment times).

This is the first part to which the Company held prospered the financial results in complainage with inside. Shorting April 1, 2015 with the Accounting Standards (NO AC) are useful in death of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies (Accounting Standards socilidad union Section 133 of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies (Accounting Standards socilidad union Section 133 of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies (Accounting Standards socilidad union Section 133 of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies (Accounting Standards socilidad union Section 133 of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies Act. 2013, read with Ruise 7 of the Companies Act. 2013, read with Ru

The Bysins for the consequence accurate accurate 13-cs are uniques and, 2013 ease with RNB 7 of the Companies (Accoursin RNBs; 2014 (provides GAMP)).

The Bysins for the consequence provides provides a restaurated uson your with hird AS b trained before one consequence with or careful present of the marketion for an extra decision of the second present of the marketion for the second present of the second present o

not annualised.

The legal issue of arbitration matter involvity the Confingent Liability of Rs 1034 33 Lakes is pending for adjustration with the Ex-Supreme Court Judge as the Soie Arbitrator and insurcial effect if any will be provided on settlement of the issue.

The Conscioused Funcacia Results include the financial results of both subsidiaries of the company namely Mis. N. S. Engineering Projects Pst. List, and Mis Cosmic Springs & Engineers List, which how become subsidiaries for the financial year 2004-20.

The abovesed financial Results for the Tartical year 2004-20.

The abovesed financial Results for the Tartical year 2004-20.

The abovesed financial Results for the Tartical year 2004-20.

Cosmic CRF Limiter

naging Director DIN: 06613027





Anita Mehra

from QUASTELS

#### Exclusive Mumbai Event

8th & 9th Nov (Sat & Sun) 9 am to 5 pm Trident Hotel, BKC, Mumbai



GET IN TOUCH TO BOOK YOUR SLOT NOW

+91 93212 86252 / +91 85912 83103

www.benhams.co.in | mumbai@benhams.com 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5

2

49

48

47

46

45

44 3

42

41

9

39

38

37

36

35

3

33

33

33 8

53

28

22

26

52

24

23 3 2

20

-80

17

0 15 7

6 N

10

## उत्तराखंड: हाथी मित्र स्कीम लागू करने की हो रही तैयारी!

हाथियों और इंसानों के बीच टकराव कम करना मकसद

= NBT रिपोर्ट, देहरादून

उत्तराखंड वन निधग बहुरे हाथी-संबद उत्तराखंड कर निरुप पहुंचे होनी पास्त्र हो उत्तर के निरु एशो मित्र क्षेत्रीय की हो तान करने भी क्यायर में बुटा है। इसी निरु करने में क्यायर में बुटा है। इसी की निर्म स्थीम से महन्मर हाथियों हमने करनाई हाथीं निर्म स्मिन के तार्थ समें पहानों और तार्थ के आस्मार स्था प्रविधान निर्मा के निर्मा किया करणा, जो हाथियों के स्थानहा उत्तरी अस्मार के स्थान के स्थान स्थानिया हम कर रखी। उत्तर सुद्धी गर्वाचित्रमा स्था नवर रखी। उत्तर सुद्धी गर्वाचित्रमा को स्थान स्थान पर पूर्णाएं देंगे और इसिया में सुद्धी स्थानस्थान स्थानस्थान

को भी सतर्क करेंगे। इलोगों को करेंगे जागरूक: हाथी लोगों को करेंगे जाएकल हार्य जिस का निका के लिए कर ताहरा की वरह काम कर हरियों को शहरी देशों से सुरिस्त जंबलों को दिया से जीवंग लोगों की उनक्रक करने औ आरम पर सुन्ता देने का काम करेंगे। उनस्थाद राज्य में हार्बियों की संख्य उनस्थाद राज्य में हार्बियों की संख्य उनस्थाद राज्य में हार्बियों की संख्य उनस्थात राज्य राजि है। सात 2017 में



बरीब 2,026 हाथियों ये राज्य में होने सुरक्षित किया जा सके

≡ NRT न्यूत, मेरठ

भीते कुम यासे चर्चन सौरण हत्याकांट मीती कुम यासे चर्चन सौरण हत्याकांट से अधिक और सामजिक विस्कार के सीवर में जार के प्रेमिक में रहा हो हो जी कि सीवर में अल में रहा हो हो जी है। उन्होंने अपने पर गर भित्रक कि मीत के में रहा हो है। उन्होंने अपने पर गर भित्रक के मीत के में रहा हो है। उन्होंने अपने पर गर भित्रक के में रहा हो है। उन्होंने अपने पर गर हैं। के सीवर में इस की मीत मीत कि सीवर में रहा हो है। अमने 2025 की मीत की हत्या के पह से मुक्ति को अधिक प्रस्त के मीत है। के सीवर में हता है। यह से असने मीत है। विकेट मुस्तान का परिवार हम घटना

भारत महास करा चारता मुस्कान का परिवार इस घटना के बाद में ही आर्थिक और उसका ऐसी

क्या 2,026 तालेपी के राजन म तर मुर्ग्स विकास वा सकता में अभी में अपने में प्राण्य का उपनाम निर्माण के नार जा अपने की राजाइड में 10 वर्ष में करीन में इसी अपने में करीन में उन्होंने के राजने बीतियों के राजने विकास के प्राण्य के में करीनों के राजने विकास के अपने अपने में करीने में में में प्राण्य में कर में में में मार्ग पार्टी नहीं संख्या के मार्गी मार्ग पार्टी नहीं संख्या में मार्गी पार्टी नहीं संख्या में मार्गी मार्ग पार्टी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्ग मार्गी मार्ग्सी मार्गी मार्ग्सी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्ग मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्ग मार्गी मार्गी मार्ग मार्ग मार्ग मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी मार्ग मार्ग

परिवार आर्थिक और सामजिक

तिरस्कार को पीड़ा झेल रहा है

#### सौरभ हत्याकांडः मेरठ छोडेगा फटाफट खबरें मुस्कान का परिवार, घर पर लिखा 'मकान बिकाऊ है' राहुल के केस की

सुनवाई टली

#

े NBT न्यूज, सुरातानपुर जिले के MP / MLA कोर्ट 1 बल रही नेता प्रविपक्ष व ्ट्रामरेली राजव सहुल गाँगी के किरायण गांचारि केश में गूलका केश सुगांच नो के साली। यहता को सुगांच नो के साली। यहता को सुगांच नो के अग्रिकता वाशी सुनां को निकान के कारण कोर्ट में को साली आपे तो जब सुगांचा को स्थान आपे तो जब सुगांचा को स्थान आपे तो जब सुगांचा को स्थान आपे तो को सुगांचा का साली कोर्ट में मान के स्थान का साली कोर्ट में मान में का साली कोर्ट के साल के साल की का साली कोर्ट के साल के साल की का साल की स रायबरेली सांसद सहुल गांधी के आरोग है।

#### N धार्मिक स्थल पर पूजा करने का प्रवास

सुस्तान को पोतार हस पदर्ग क नाह से हैं आर्थिक और सामार्थिक निरम्भाग के गीता प्रसाद अपनी चली करिता, एक देंट और एक अपन देंटी का सामार्थन में रहते हैं। इसे सुर्पान के पोत्यन में प्रकार के दिन्न सुर्पान के पोत्यन में प्रकार हिन्न अपने पर पा में मकान में रहते हैं। इसे सुर्पान के पोत्यन में प्रकार हैं। इसे सुर्पान के पोत्यन के पोत्यन के हैं। से स्वान से मुस्तान के पोत्यन के हैं। से अनुसार, सुप्तान के पोत्यन के हैं। के अनुसार सोप्तान के पोत्यन के सामार्थ के अनुसार, सुप्तान के पोत्यन के सामार्थ के अनुसार सोपा हरता है। सामार्थ के अनुसार सामार्थ के सामार्थ के अनुसार सामार्थ का सामार्थ के अनुसार सामार्थ के सामार्थ के सामार्थ के सामार्थ के सामार NBT न्यूज, फतेहपुरः इअकृतार रेड्ड्या ने क्विदित स्थल के बाइर कार्तिक पूर्णिमा वे दिन पूजा की कोशिश के मामले में 21 अज्ञात के खिलाफ केस इक्जे हुआ है। पुलिस के अनुसार उपास्त में एक खर्मिक स्थल को जिंकर दो पक्षों में निवाद हो गया डलेकर दो पक्षी में निज्ञ हो प्रथा ड्या | इसके बाद एक समुदाय ने विवादित त्याद में पुराकर डबाद तंड़ दिया था | इसके डबाद देव दीपवलों के दिन पदा डके नेवृत्व में जाफी से महिलाए |विवादित स्थल पर दीपक जलाने डऔर पुनन के लिए जाने लगी। जानकारी पर पुलिस ने बेरिकेडिंग लगकर रोका था। इस दौरान ्रताकर राज्य वा उस करा इंताकी विवाद हुआ था। इस इंपमत में केस दर्ज कर आरोपिती इकी सिनास्त्र शुरू कर दी गई हैं।

#### सोनभद्र की 'लुटेरी दुल्हन' गिरफ्तार

ुदुस्तन ' गिरप्सार = शवा, सीतमां संतर्गक्ष चित्रते की योध्युष्ट यान पुलिस ने सुरुवार को करित्रत तीर एक प्राम्न मुद्देव के पान शिक्तार चानस्थान मो सात्री के पान एस थोडा पाने चारते चारी एक 'एंट्रेसी दुक्त', चारती थी पीत पीत को मिरसामा चारति हमा है। पुलिस के अपूरार मेरसामा स्वीतीयों की पानना चारती (23) और उपाके चारति पीत पान मोर्ग (23) और चारती की मा मार्ग देवी (30) के चारती की मा मार्ग देवी (40) के चारती की मा मार्ग देवी (40) के क्षेत्र में हुई है। मिरावारी के स्वाम इसे उनके सारा से जुट के जैनर जोर नक्ष्मी बरागद को नई है। जारित नक्षमी कि सारामान के जार्जन किसके कि सारामान के जार्जन किसके कि मानारी प्रमान इस्त्र में जाकिनीआरएन परेटा अपना के जोकिनीआरएन परेटा जारा है जे हिमारी कुकर तोची उच्च शही के नमा पर जनके जारा प्रमान के सारामा के सारामा के सारामा के सारामा कि सारामा के सारामा ्रआतेष लगाया कि सादी के बाद जुड़ारन जेयर और नकद लेकर प्रकार हो गई।

हाथरस हाटसा अगली सुनवाई 13 को भाषा, हाधरस विक्रले स्वल हुए चल्लाम पमदद कांद्र की उपाली चुनवाई अब 13 नकंबर ∃को होगी। पुरुबार को अव्दलत में ≣इस मामले में उस वक्त निगरानी प्रकोग्ड के प्रभारी रहे इस्पेक्टर ्वक्रीण के प्राप्ति रहे इस्तेम्बर कम्पती बृगार की महारी वर्ग की मही सरवाकि, जारीवी का के मुख्य वर्गाल मुन्न सिंह मुंडीर की अपूर्वाच्छीर के कारण जिस्स नहीं होते सकी। यह हारख 2 शुख्य 2024 की सिक्तरासाज बैश के मीत अम्रोजित स्टबर्ग, स्ता सूरजपल उर्फ नशरप सकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा के g:—समानम के दौरान हुआ था।

## आजम के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

NBT रिपोर्ट, गई दिल्ली: सुप्रीम केर्ट ने समजनते पार्ट नेता आक्रम खो के नेट और उत्तर प्रदेश के पूर्ण निपायक अनुस्तर आक्रम खो हाथ वागर कर खाचिका को खोजा कर दिया निया उन्होंने पास्त्रीर्ट वनवाने के लिए करित रूप से जानी दस्तानेता के इस्तेमाल के मानते में इस्तं 1912 को रह करने सो पाग की थां। अधारता ने कहा कि तम इस मानते में देखता ने कहा कि तम इस मानते में देखता ने ने क्षा कुल नहीं है। उपान करेंट को पह स्वतंत्रत हैं कि वह साएमा करेंट के जोटरा कार्य पहलेश नी अपान के आपान कार्य प्रशास पहलेश नी अपान के आपान कार्य कार्य करने के उत्तरावाद हों कोट के उस अदेश को सकस्य रहा निस्तों एकर्स हों। रह करने के इनका कह दिख्य गत्र थां, मुक्ता कर्मीक मुक्ता में में मानते कार्य हों हो पूर्व से थां पीव अहारता ने कहां के लिए हों हो पूर्व से थां पीव अहारता ने कहां के लिए कि हासक कोट एम स्थास प्रशास कार्य मामले में इन्ने 1713र को रह करने की मांग

प दाज हुआ से स्वाचित हैं हिसमें अल्ड्ल आताम खें के खिताक विशेष एमडी, पाएकर जब एमस् के अदालन में आईशीमें की बरा पुरुद्धा चला कहें हैं। हिस के अदालन पुरुद्धा चला कहें हैं। हिस के अदालन

अन्युरता आतम खाँ ने पासपोर्ट वनका के लिए कथित रूप से जाली दस्तानेश क (त्यू कावत कर से जाना देखांच्या का इस्तेमाल किया थ्या जिसमें उनकी नम्म विशि ३० सितीय 1990 नवाई गाई थी, जाकी स्कूल रैकीट के अनुसा उनकी प्रस्तियक जन्म तिथि । जनवरी 1993 है। कि द्वापित काट पर मध्यक व दक्का दुल्ला कोर्ट को निर्माय लेने दीनिए। जन द्वापत प्रस्ते ही पूरा हो चुका है, जो अब हम क्यों हस्ताक्षर करें? यह मामला चमपुर जिले के सिविल लाईस पुनिस स्टेशन

## पीएम आज देंगे बनारस को वंदे भारत की सौगात

को संबोधित करेंगे। संबाद में शामिल होने बाले प्लेटबॉर्ग नंगर 6 और 7 पर वैठेंगे। ऐसे में दोनों प्लेटपॉर्म वक टेने का परिचालन नहीं होगा।

नवंबर को बनारस नेसबे स्टेमन से पारागली-छञ्जरातो वंदेशारत एक्सप्रेस समेत चार सेमी हाईस्पीड ट्रेनों को हरी होडी दिखाका स्वाना करने के बाद न के प्लेटपर्रेम नंबर 8 गर बना गए, मंच से विद्यक्षियों, विशिष्टजनो समेत करीव चीन हजर कारीचासियों



9422011723

Ph.D. & Integrated M.Sc.-Ph.D. Programme Starting from January 2026 - No. of Vacancies: 04 (PhB / IPhD)

#### भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग जायन दीप भवन, द्वितीय तल, संसद मार्ग, नई दिस्ती-110001

रिगोक (7-11-202: करण में पूर्ण-कालक सदाय (बीमांकतरे) और पूर्ण-कालक घटस्य (बितरण) के पद पर गिर्वास्त हेतु आवेद

ग्रम प्र	ण्य का नाम	तिकायों यी सं	रिव्लियों की सरीध	समेकित केरन और भगा
1.	पूर्ण-कारिक सदस्य (चीर्नारिक्ती)	1	04.01.2025	आवास और कार की सुविधा के बिना 5,00 लाख स्पर प्रति नाह
2.	पूर्ण-वालिक सदस्य (विताप )	1	02.02.2026	आवार और कार की युविधा के बिज 5.00 लाख रूप प्रति वार

भेनलहट पर उत्तरभ हैं। असरह पर उत्तरभ हैं। असरह प्रान होने की अंतिम तरिख 01:12:2025 है।

## 趣 ्रू कर्मयोगी भारत

(कार्षिक एवं इतिश्रम विवास, भरत सरकार के प्रसासनिक निवंतन में कंपनी अधिनिवस, 2013 की धार ह महत पंचीइत एक सरकार्य कंपनी। पर्वांगाय केरिटल टॉवर उची मंतिल, मई व्हेर सिंह मार्ग, सेक्टर 4, ग्रोस प्रकेट, न्हें हिल्ली- 110001

#### कर्मयोगी भारत के तहत भर्ती

कार्मिक एवं प्रसिक्षण कियान के अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन वाहन (एससीवी) कर्मयोगी भारत की मिशन कर्मशोगी के आंतरंत निर्मादेवीस

क्र.स.	पद	पद का तरामा	अक्षतम्बन
1.	पुछा उत्पर अधिकारी ( शईनीओरी)	एक (1)	18
2	तरित महाम्बधन सरीद तथ अदुन्ध	UH (1)	tr
3.	भग्नप्रथंक – क्लाउड ऑपोसन तथ अईटी इन्हरस्तका	164 (1)	हैं। तेवत समक्य
a	वरिष्ठ प्रबंधना – रार्विन उन्हेंबेसान दवं कियाइन	एक (1)	ईंऽ तेवत समक्थ
5	प्रमंशक – परिवासन एवं स्थानकाय	UK (1)	ई। नेपस समक्य
6.	व्यक्ति – सूचना एवं नाइक सुरक्त	取6(1)	🗱 नेवल समक्रक
7.	प्रकंपक – देव विवलेका एवं एमआईएस	<b>V8</b> (1)	ई4 लेवल समयथ
a.	सहायम प्रवंधक – खरीद एवं अनुबंध	現在(1)	ईंट तेयत तमबश्च

## GOVERNMENT OF MEGHALAYA HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

Department	Professors	Associate Professors
1. Anatomy	Nii	1
2. Physiology	1	1
3. Pharmacology	1	NI
4. Pathology	1	Ni
5. Microbiology	Nii	1
6. Forensic Medicine	1	Ni
7. General Surgery	1	Ni
Chstetnes & Gynaecology	1	M

Nature of Appointment: The appointments shall be made on a contractual basis, initially for a period of one year, extendable based on performance and requirement of the College.
 Remuneration:

Eligibility: Candidates must possess the requisite qualification by the National Medical Commission (NMC), TEQ 2025 or as:

of academic excellence, dineal compelence and research.

4 Mode of Application: Eights and interested candidata shipmedical-bologoe@mail.com.

5. Last Date for Supermission: The online application wind up to 500 PM.

Further: Details: Detailed information regerding el selector precedence is evaluate en the efficial websit https://meghc.ilfn.pov/m.

#### मिंडा कॉपोर्रेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ए-15, अशोक विकार, फेज-1, दिल्ली-110052 सीआईएनः L74899DL1985PLC020401, टेलीफोनः -91-0120-4442500 कॉर्पोरेट कार्यालयः डी-6-11, सेक्टर-59, गोएडा-201301, उत्तर प्रदेश, इंमेलः investor@mindacorporation.com, वेबसाइटः www.sparkminda.com



#### 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं समाप्त छमाही के लिए स्टैण्डएलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

क. (लाखों में)

	स				<b>मेकित</b>			स्टॅंडएलोन					
	विद्यस्य	समाप्त विमाही			समाप्त	समाप्त छमाही समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
	(data)	30-सित25	30-जून-25	30-जून-25 20-सित24	4 30-सित25	30-सिन24	31-मार्च-25	30-सित25	30-जून-25	30-सित24	30-सित25	30-सित24	31-मार्च-25
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षत	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षा
1.	परिचालनों से कुल अस	1,53,831	1,38,917	1,30,166	2,92,748	2,50,239	5,08,863	1,25,288	1,14,450	1,07,060	2,39,738	2,04,629	4,18,209
2.	अवधि हेतु निवल साथ (कर पूर्व)	9,279	7,073	9,593	16,352	18,037	33,566	6,298	5,402	8,329	11,700	15,282	27,738
3.	अवस्थि हेर्नु निवास लाभ (कर पएवात)	8,464	6,531	7,434	14,995	13,854	25,537	4,699	4,183	6,267	8,882	11,427	20,590
4.	अवधि हेतु कुल व्यापक आप (अवधि हेतु लाभ (कर परचर) तथा अन्य व्यापक अग्न (कर परचर) शादिल)	8,780	6,555	8,200	15,335	14,314	25,425	4,778	4,183	6,303	8,961	11,463	20,592
5.	इक्किटी फ्रेंकर पूंजी	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782
6.	अन्य इतिहारी	2,39,181	2,32,512	2,05,446	2,39,181	2,05,446	2,15,436	2,03,629	2,00,993	1,78,350	2,03,629	1,78,350	1,86,291
7.	नेट शर्श	2,43,963	2,37,294	2,10,228	2,43,963	2,10,228	2,20,218	2.08.411	2.05,775	1,83,132	2.08,411	1,83,132	1,91,073
8.	अब्द प्रति शेयर (स. 2/- प्रत्येक) (चार्षिकीकृत नहीं) (क) चैतिक (त. में) (ख) डाइल्युटेड (स. में)	3.60 3.54	2.78 2.73	3.16 3.11	6.37 6.27	5.89 5.79	10.85 10.68	1.97 1.97	1.75 1.75	2.52 2.62	3.72 3.72	4.78 4.78	8.51 8.51
9.	प्रश्न इविषदी अनुपात (गुना में)	0.53	0.56	0.16	0.53	0.16	0.51	0.64	0.66	0.19	0.64	0.19	0.73
10	ऋग सेवा कवरेज अनुपात (गुना में)	0.85	0.82	1.24	1.41	2.22	2.73	0.63	0.65	1.07	1.08	1.88	2.27
11	ब्याज सेवा कार्यरंज अनुपात (गुना में)	5.57	4.70	12.33	5.12	12.31	7.84	4.05	3.72	10.61	3.88	10.49	6.64
12	पूंती पोचन आरक्षित	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920

वानः गुरुग्राम

स्थानः गुरुग्राम दिनांकः ०६ नवम्बर, २०२५

उपरोक्त विजीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति हारा 06 नवम्बर, 2025 को को गई और उसी तिथि को आयोजित निवेशक मंडल की बैठक में उन्हें अनुमोदित किया गया।

उपरोक्त परिणाम संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकी (इंड एएस) की मान्यता और मापन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए।

कपिक रिनी (सुचीबद्धत विशेष्ट प्रकटोकरण आवस्पकताएँ) विनियम, 2015 के बिनियम 33 और 52(4) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल 30 रितम्बर, 2025 को समाप्त तिमारी के विनीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। स्टैंडअलीन और संमिक्त परिपामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों को वेबसाइट (वेबसाइटी) www.nseindia.com, www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.sparkminda.com पर उपलब्ध है।



निदेशक मंडल की ओर से हस्ता./-अशोक मिंडा


31

32 33

29 30

अध्यक्ष एवं समूह सीइंओ

बेवजह वजन अन्य किसी का बेवजह वजन कम हो जाए वो गह कैसर का स्वर्त शहन वांधम है। यहां इस बात को राम्युवना बेहर व रुसरी कहें है कि ति शहन का वजन कम होना ही कैसर का लाग नहीं है। सकता वींचेन कर बाद वजन कम करने की कोशेश





8

95

45

9

39

38

37

35

3

33

33

33 8

53

28

52

26

52

24

23

8 2

20

-80

17

0

-1

6

2

10

#### मोनाड यूनिवर्सिटी पर ED की रेड

 NBT स्यूज, हायुद्धः मोनाड युनिनर्सिटी में फर्जी डिग्री और मार्कशैट ्युंनतिस्ट्री में पन्ती दिवी और मार्कशेट के प्रमास में प्रत्यत निरंदराता (ईंड) ने एत्या को ही सराव्या में। इंडे ने दोनों ने कारत की सराव्या में। इंडे ने दोनों ने कारत किया के तत्या गण्य कि १८ दिवानी पर वारोमार्ग की गई। इसारे जुड़े को इसीनों के दूसरारे, पण्ये अंग सर्वयों को इंडोला नाया कर्जी दिवी ने स्वार्ण की जुड़े कर सरीती के दूसरारे, पण्ये अंग सर्वयों को इंडोला नाया कर्जी दिवी ने स्वार्ण की जुड़े कर महिला की प्रत्या कर की दिवा कर है है ईंडी की इसीक्ष जीन में इसार बीचा है कि पांचल मुनिस्ट्रिट न केन्सर सामान दिवी चर्चक केन्द्री की वीचा की स्वार्ण की स्वार्ण कर की स्वार्ण की इंडोलियारिंग और एसबेए जैसी प्रशेषनात्वा करने विक्रियों भी करती तर्वेक से कार्यों में भी -इन डिग्रेगों की एनन में लाखी रुपर्ग सूले न रहें थे।

#### CP दफ्तर के पास मिली सिर कटी लाश

 NBT रिपोर्ट, नोएडाः सेक्टर-108 स्थित पुलिस कमिशनर अफिस और सेक्टर-82 पुलिस चौकी के पास जाते में गुरुवार को महिला की सिर कटी ेलाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिल

यहा पंकन की आशंका है। घटनास्थल पुलस कमित्रगर अफिल से 800 मीटा और क्षीत्रल चौकी ले महज 100 मीटर दा होने से सुरक्षा स्थलस्था पर सनाल खड़े ही चर्त है। आजगास CCTV केमरे थे नहीं हैं, जिससे कोई मुख्य मिल सके। पैर की इंगारी में एक विक्रुआ मिला है, जिससे पुलिस प्रधान का प्रथम कर रही है।

पुलिस ने एक हफ्ते में

पकड़े 6 साइबर ठग

## चलती कार में लगी आग, महिला और बच्चा फंसे, पुलिस ने बचाया



अएवनी शर्पा, नई दिल्ली

अचानक आग लग गई। कार के अंदर एक महिला और बच्चा था। आग लगहे ही महिला घनग गईं और मदद के



दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर को रोक कर आग को बुदाया गया।

#### समय रहते पाया आग पर काब

रोड की दूसरी चरज आ रहे दिल्ली जान बोर्ड के टैकर को पुलिसकर्मियों ने रोका और पब्लिक की मदद से आग प्रीवक्त की मन्दर से आप के बुक्का। पटनाश्चल म गौजूर संपीत सिर ने कावा कि अबर समय पर अन नहीं बुक्की तो कर तो गरंद में कई माईबा आ समती थी। पटना के जीवन देन ताबर के पास कार्य की प्राप्त कर इंद्रक्त महिला की प्रदान कर कार्य है। पटना के बार मुझ्कि है। पटना के बार मुझ्कि है। पटना के बार मुझ्कि है। पटना के बार मुझक्त महिला के प्रदेश स्वार्त में पुनिस्स्कारीयों का गुक्किमा अब्द निया। अदा किया।

## नशे में किया कमेंट, युवक की हत्या

नरेला इलाके में घर की छन पर एक पुनक भी पैट-पीटकर हत्या का मामला समने आव है। आरोप है कि हारान के नशे में कमेंट के बाद फैवान चाम के शख्त की इंट, इंडे से हमला कर हत्या

पुलिस टीम काइम सीन का मुधायना करने घटनास्थल पर पहुँची। जहाँ नरेला के सेनटर ए-६ में शहर करटूनरान मनान की पहली मंजिल पर कारी खुन फैला हुआ था। खुन के नज़दीक ही दरी पड़ी हुई थी। छन पर सुखी लकड़ी, जरान के ख़ली अध्ये पत्ने व पानी की शहस की हंद, रहे से हमला कर हत्या कर दो गई। पुरित्स ने एक आयोरी को पर्यक्त हिंगा हैं। 'पिता में प्राथमिक राज्यात 2 अब्दूलर को एसएकआप्रस्थी हिंग्यादन से पुरित्स के पुनन्त मिली। पत्र प्राप्त के प्रमुख्य मिली। पत्र प्राप्त के प्रमुख्य मिली। पत्र प्रमुख्य अपरीय प्रमुख्य मिली। पत्र प्रमुख्य अपरीय प्रमुख्य मिली। पत्र प्रमुख्य मिली। प्र प्रसान के उन्होंने अर्था पत्न स पानी की — पूर्व नंतास और सहान न दूरी हुँट रही हुँदें थीं। पुलिस ने क्राइम दीन को नुसान्तर न स्क्रों से सामन्त्र करना किए। पुलिस ने मौके पर बानगीन और असपास के लोगों में पुल्वाक के बाद वारतन की — 00 अपास बेने वाले सहक की एल्यान कर

कर्ज चुकाने को चोरी NBT रिपोर्ट, नई टिल्ली:
साउथ नेदर डिस्ट्रिस्ट में एंटे
कांतरों संत ने चीरी के मामले
में एक चरेल नीकर को गिरकार
किया है। आरोपी ने 4-45 लख
चोरी को बी। डीस्पीपी अमित संबत के अनुसार इंस्पेक्टर राम कुमा की देखांख में आगंपी के कब्जे से 3.29.500 नगद बरामद किए हैं ।

## पिज्जा न देने पर युवक को पीटा

NBT रिपोर्ट, गई दिल्ली

पुरस्स ऑक्सारों ने बताय कि 32 वर्षीय अमेत नृहा रिचा विशिवनी का कान करते हैं। उनका कहन है कि । नर्ववर की सब यह साउथ गर्वाक नार में दिखा सन्साई कर यहे थे। अन्ववर्षा की से हो तर वजात प्रोक्तम साउथ

सादध गणेडा नगर इलाके में दो युवको पिळा ने देने पर एक जिल्ल्यरी वांध को र दस्ह पोटा। यही नहीं, ननाने आए एक युवक का सिर भी पोट्ट दिया। में दो युवकों ने वरी वाथ को बुरी प्रक्र प्रस्ता है। पहुंच पहुंच प्रस्ता है। स्वाप्त स्वाप्त साहस्य साहफ्र इसके बाद दिखावत क्षाँ करने की प्रमुक्त देवर अरोप सीरू से एक्स हैं प्रमुक्त के दूसन के हिन्दू बीति अरमान में मार्च कराया गा। शिक्सान मंद्रकले पृतिह मंद्राक्षी गिक्सी पोत्ती पर गर्दी है। स्वाप्त स्वाप्त साहस्य साहित आ कि विकास साहस्य गिक्सी पोत्ती पर गर्दी है। सीहत के साथ साहबोट करने लगे।

## बुजुर्ग दंपती से लाखों की टगी

ुष्टमा कुमाल सिंह, र्न्ह दिल्ली। इस्ट दिल्ली में एते वाली 70 खाल की रिवार टीव्ल विकंकत अस्थाना और उनके पति के कैक अक्टर से करीब 10 लाख 20 हजार तम की उने का कैक किस्ता कि किसी के उन्होंने तम तो औरों। ग्रेगर किना और नहीं पर सुमावा बैक कमिंयों पर लगावा बैंक डिटेल किसी को दी। इसके वायजद उनके दगी में शामिल होने अकाउंट से रकम निकाल ली गई। बुजुर्ग महिला ने दगी में वैक स्टाफ की मिली भगत होने का अग्रेप लगाया है। महिला ने साइतर शाना में

गना। सहस्वर गुनिस्त वर्षा इसके अवस्थित र स्वार्थित का गना। सहस्वर गुनिस्त वर पता कर रही है कि उन्होंने वैक से कर अकाउंट में भेजी गई। बंधती का कहना है कि उन्होंने वैक से कर बार मदद मांगी शेकिन उन्हें वहरू नहीं मिली।

कम्प्लेंट हो। इसके आधार पर मामला दर्ज किय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरक प्रदिला एवं बाल विकास विधान

कियोर न्याय अभिनियम २०१६/ संयोधन अधिनियम २०२१ और मोटल नियम २०१४/ मॉटल संयोधन नियम २०२२ जामंत्रित किए जाते हैं:-

- अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति 02
- सदस्य, बाल बाल्याण समिति- 12

DIP/Shabdarth/Classified/0322/25-26

आवेदन दिनांक 08.11.2025 (प्रातः 12:01 क्ले मध्यरात्रि) से आगामी दो सहाह की अवस्थि हेतु अर्थात् दिनांक 22.11.2025 (श्रीत 11:59 वर्षे तक) तक स्वीकार किए लागी, आवेदकों को नियुक्ति के संदर्भ में और पात्र मानदेंत्रों के लिए वैव पेटल http://wcd.delhl.gov.in/ देखने को सलाह दी नाती है और ऑनलाहन आवेदन करने के लिए किएन को वेबसाइट के लिंक http://eams.woddel.in/ देखें। आवेदनों की चांच के बाद चयनित किए गर उम्मीदवारों की सुची विवाग की वेनसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। उम्मोदवारों को यह भी सलाह दो जाती है कि प्रक्रिया जागे रहने के दौरान से इस संबंध में कसी भी अपडेट के लिए विभाग की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें

नोट: विभाग द्वारा ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन पर विचार नहीं किसी भी समय रिवितयों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार भी सुर्यक्षत रखता है।

(महिला एवं बाल विकास)

# Spl. Range of Casual Shirts

Formal & Party Wear MEN & WOMEN

ARROW PARK AVENUE ColorPlus LOUIS PHILIPPE LEVIS

पातिय बीच बिनासक और व्यवस प्रविकाल में एर्ड-वर्शनस सदस्य (बीमीवयो) और पूर्त-वर्शनक सदस्य (बिनान) के पर पा नायुक्त हुतु अवस्थ अमेरिक रूला।

京平 社	पद्भा नान	तिकायों यो सं	रिक्तियों की सरीख	समेकित बेहन और भवा
1.	पूर्ण-कारिक सदस्य (चीर्गाकिकी)	1	04.01.2025	आवास और कार की मुविधा के बिना 5.00 लाख रुपए प्रति नाइ
2.	पूर्ण-कालिक सदस्य (विवस्य)	1	02.02.2026	आजस और कर को सुविध्य के बिना 5.00 साध एउए प्रति बार

. विस्तृत निर्माण एवं वृत्ते वितीय सेवार्र किया (http://financials चेबलाइट पर उत्तरका हैं। . अनेतर प्राप्त होने की अंतिय नरीज 01.12.2025 हैं।

# ति अप्तर प्रयोद्ध की सहस्वर से वाह्न से से प्रयोद्ध की सहस्वर से वाह्न से से प्रयोद की सहस्वर से वाह्म से प्रयोद की सहस्वर से वाह्म से प्रयोद की से प <sub>8</sub> पुलिस ने मोबाइल चोर को दबोचा

NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: किट विस्ट्रिक्ट को दो पुल्सा ट्रीमें ने अलग-अलग समानों में दो आगेषियों को पिल्लार किया है। इसाला भागा पुलिस में एक मोवाइल चोर को चोरी किए गए दोन के साथ पकड़ा। नहीं डिस्ट्रिक्ट कोन के साथ पकड़ा। नहीं डिस्ट्रिक्ट को एएडीएस ने एक बगोड़े आरोग की एट्टॉएस ने एक कांट्रे आरोपी को दर्जना परन्त एक आरोपी को करणन सरकारपुरि किराबी अपन (27) और कुप किरान विभावती अपनार पुत्र (26) के रूप पे हुए हैं। प्रांत्स अपनार के अपनार कुरात भाग बेट के दो जो, कोलोपी निवासी एक क्विया ने एक अस्थ्या को अपने क्या में नाइस प्रेम चारी होने की प्रकार कर कर है।

#### रेलवे स्टेशन से लापता हुआ बच्चा

■ NBT रिपोर्ट, पई दिल्ली क्रियान निवासीन परने व्याप्त से क्रियान निवासीन परने व्याप्त से क्रियान निवासीन करने व्याप्त से क्रियान परने आहे. अझात नहीं सितने पर ग्रह्मात परने स्व व्याप्त स्व व्याप्त से का आरोप का आरोप का आरोप का स्वाप्त से स्वर्धनात पर आहरण

क पाता को शिकासत पर अवहरण का मामता दर्ज कर लिया है। पन ने अज्ञात च्यक्ति पर उसे कहता कुसत्ताकर स्त्रे जाने का आरोप लगाना है। नहीं पुलिस का कहता है कि नत्ना दो से तीन सीसीदीनी कुटेज में अकेला पुमता नजर अ रहा है। फिसहाल पुलिस वच्चे की धनसार, कहीया लाल परिवार के ातंत्र मूल रूप से टीकमगढ़ मध्य

#### मिंडा कॉपोरेंशन लिमिटेड

मीकृत कार्यालयः ए-15, अशोक यिहार, फेज-1, दिल्ली-110052 खाइएनः L74899DL1985PLC020401, टेलीफोनः +91-0120-4442500 रेंट कार्यालय: डी-6-11, सेक्टर-59, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश, इंमेलः investor@mindacorporation.com, वेबसाइदः www.sparkminda.com SPARK MINDA

#### 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं समाप्त छमाही के लिए स्टैण्डएलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

क. (लाखों में) समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष 30-सित.-25 30-जून-25 30-सित.-25 30-जून-25 30-सित,-24 परीक्षित जापरीक्षित अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित अलेखाएंग्रिक अलेखापर्रेशित अनेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित गपरीक्षत अलेखापगिक्षित 1. परिचालमें से कुल अवन 2,50,239 1.53.831 1,38,917 1.30.166 2.92.748 5.08.863 1.25,288 1.14,450 1,07,060 2.39,738 2.04,629 4,18,209 अवधि हेतु निवल साभ (कर पूर्व) 18,037 7,073 अवशि हेर्नु निवल लाभ (कर प्रश्चात: 7,434 25,537 6,267 8,882 11.427 20,590 20,592 6,55 8,200 15,339 14,314 25,425 4,778 4,183 6,303 8,96 11 463 4,782 4,782 5. इक्किटी लेकर पूंजी 4,782 4,782 4,782 4,782 4,782 4,782 4,782 4,782 4,782 4,782 2,39,181 2,39,181 2,15,436 7. बेर सर्थ 2,37,29 2,43,963 2,10,228 2,20,218 2.08.411 2.05,775 1,83,132 2.08,41 1,83,132 1,91,073 8. अब्द प्रति शेवर (२. २/- प्रत्येक) (वार्विकीकृत नहीं) (क) वैशिक (२. में) (ख) बाहल्युटेड (२. में) 1.97 8.51 9. इस्म इनिवदी अनुपत (गुण में) 10. इस्म सेवा कवरेज अनुपत (गुल में) 0.53 0.56 0.16 0.53 0.16 0.73 0.85 0.82 1.24 1.41 2.73 0.63 0.65 1.08 1.88 2.27 11. ब्याज सेवा कधरेज अनुपात (गुना में) 7.84 6.54 5.57 4.70 12.33 5.12 12.31 1,920

उपरोक्त विजीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा 06 नवम्बर, 2025 को को गई और उसी तिथि को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में उन्हें अनुमीदित किया गया

उपरोक्त परिणाम संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानको) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 को घारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को मान्यता और मापन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए।

उपरोक्त सेबी ( सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवस्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 और 52(4) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल 30 रितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही के वितीय परिणामों के विस्तृत ग्रारूप को एक अंश है। स्टैंडअलोन और समेकित परिपामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (वेबसाइटी) www.nseindia.com, www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.sparkminda.com पर उपलब्ध है।



निदेशक मंडल की ओर से हस्ता./-अशोक मिंडा

> 31 30

32

स्थानः गुरुग्राम दिनांकः ०६ नवम्बर, २०२५ अध्यक्ष एवं समूह सीइंओ

